



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

10 भाद्र 1937 (श0)
(सं0 पटना 991) पटना, मंगलवार, 1 सितम्बर 2015

I kekU; i z kkl u foHkkx

dk; kly; vkns k

18 vxLr 2015

सं0 9/नि0-01-01/2015सा0प्र0-357—बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना के विज्ञापन संख्या 2006 द्वारा आयोजित परीक्षा के निम्नलिखित सफल एवं अनुशंसित अभ्यर्थियों को सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों में बिहार सचिवालय आशुलिपिक सेवा के आशुलिपिक के रिक्त पद पर बैण्ड वेतन रू0 5200-20200/- एवं ग्रेड वेतन रू0 2400/- में सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अनुमान्य भत्तों के साथ सशर्त आधार पर परीक्ष्यमान रूप से नियुक्त किया जाता है।

Øekd	j d	vH; FkhZ dk uke	vuØekd	tHe frffk	vkj {k.k dkV
1	2	3	4	5	6
1	13	श्री चन्दन	20620792	01.01.1976	सामान्य
2	24	श्री संतोष कुमार	20621048	01.03.1986	सामान्य
3	34	श्री पिकु कुमार	20621476	15.09.1982	सामान्य
4	42	श्री अमित कुमार	20320450	05.03.1982	सामान्य
5	68	श्री पंकज कुमार	20120925	05.01.1977	सामान्य
6	19	श्री देश दीपक सिन्हा	20620423	28.02.1979	सामान्य
7	71	श्री जय प्रकाश नारायण	20620746	13.06.1978	पिछड़ा वर्ग

2. उपर्युक्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति की शर्त यह होगी कि उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये जन्म तिथि प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्रों, आरक्षित पद के विरुद्ध नियुक्त होने वाले अभ्यर्थियों द्वारा उपलब्ध कराये गये जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य संगत सभी प्रमाण पत्रों के सत्यापन के क्रम में किसी प्रकार की त्रुटि/गड़बड़ी पाये जाने तथा उनके चरित्र एवं पूर्ववृत्त संबंधी आरक्षी अधीक्षक से जाँच प्रतिवेदन में प्रतिकूल सूचना प्राप्त होने पर संबंधित अभ्यर्थियों की नियुक्ति बिना कारण पृच्छा के समाप्त कर दी जायेगी तथा इसकी सूचना उनके पदस्थापन विभाग को दे दी जायेगी।

3. यह नियुक्ति बिल्कुल अस्थायी है तथा बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
4. वरीयता का निर्धारण बाद में किया जायेगा।
5. आदेश निर्गत की तिथि से एक माह के अन्दर योगदान किया जाना अनिवार्य होगा।

आदेश से,
आमिर सुबहानी,
सरकार के प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 991-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>